

.YMCA CENTURY SCHOOL

Class7. hindi literature lesson 8 _ लीक पर वह चले

शब्दार्थ

लीक_ पुरानी परंपरा

अनिर्मित_जो बना नहीं है

पंथ _रास्ता

साक्षी _गवाह

झुरमुट_ पेड़ों का झुंड

शेष_ बचे हुए

अमराइया_ आम की डालियां

क्षितिज_ जहां धरती आकाश मिलते हुए से लगते हैं

शोख -चंचल /शरारती

अल्हड़_ मस्त और लापरवाह

थिरकते_ चंचलता के साथ पैरों को उठाते गिराते

टीले _ऊंची जमीन ,मिट्टी या बालू का ऊंचा ढेर

अंजुरी_ मुट्टी भर या अंजलि

संकल्प_ इच्छा ,विचार ,प्रयोजन

मौखिक प्रश्न उत्तर

प्रश्न _कवि लीक पर चलने के लिए किन्हे कह रहा है ?

उत्तर _कवि कमजोर और हारे हुए लोगों को लीक पर चलने के लिए कह रहा है।

प्रश्न_ कवि ने अपने द्वारा बनाए मार्गों का साक्षी किसे कहा है ?

उत्तर_ कवि ने अपने द्वारा बनाए रास्तों का साक्षी पीले बांस के झुरमुट को कहा है ।

प्रश्न_ कवि को आकाश के मेघ कैसे लग रहे हैं ?

उत्तर_ कवि को आकाश में मेघ गायक मंडली की तरह थिरकते हुए से लग रहे हैं।

लिखित प्रश्न

प्रश्न _कवि को किस प्रकार के पंथ प्यारे हैं?

उत्तर_ कवि को ऐसे रास्ते प्यारे हैं जो उन्होंने स्वयं बनाए हैं और पहले से नहीं थे ।

प्रश्न _कवि के सपने किस से लिपटे हैं ?

उत्तर_कवि के सपने पीले बांस के झुरमुट में गाती हवा से लिपटे हुए हैं।

प्रश्न_ कविता में ताड़ के पेड़ों की तुलना किससे की गई है ?

उत्तर_ कविता में ताड़ के पेड़ों को खड़े होकर आकाश थामें हुए बताया गया है और उनकी तुलना क्षितिज की लटकती झालरों से की गई है ।

प्रश्न _कवि किसके सहारे जीवित है ?

उत्तर _कवि अपने संकल्प के सहारे जीवित है।

अपठित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:—

प्रश्न _लीक़ पर कौन चलते हैं?

उत्तर_ जो कमजोर और हारे हुए इंसान होते हैं वही लीक़ पर चलते हैं ।

प्रश्न_ कवि किन रास्तों से प्रेम करता है ?

उत्तर_ कवि अपने द्वारा बनाए गए रास्तों से प्रेम करता है ।

प्रश्न_ कवि पीले बांस के झुरमुटों के बारे में क्या कह रहा है?

उत्तर _कवि पीले बांस के झुरमुटों के बारे में कह रहा है कि यह रास्ते में साक्षी बन कर खड़े हैं ।

मूल्यपरक

प्रश्न_ अपने से भिन्न विचारों का आदर करने की प्रवृत्ति से क्या लाभ होता है?

उत्तर _अपने से भिन्न विचारों के आधार के माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जिन विचारों का हम आदर करते हैं उन्हें हम अच्छा भी समझते हैं और अपने आप ही उन्हें ग्रहण भी करते चले जाते हैं। अपनी जिन कमियों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता उनका मूल्यांकन कर हम उसमें सुधार भी करते हैं अतः भिन्न विचारों का सदैव आदर करना चाहिए ।

अपठित गद्यांश

प्रश्न _मनुष्य किस के बारे में चिंतित है?

उत्तर _मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है

प्रश्न _विकसित देश कौन-कौन से हैं?

उत्तर _विकसित देश वे हैं जहां आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग हो रहा है।

प्रश्न_विकसित देश बाजार क्यों ढूँढते हैं ?

उत्तर _सामग्री की खपत के लिए विकसित देश बाजार ढूँढते रहते हैं

प्रश्न_ विकसित देश अमीर क्यों है?

उत्तर _अत्यधिक उत्पादन क्षमता के कारण ही यह देश विकसित और अमीर हैं।

प्रश्न_विकास उन्मुख देश क्या सपना देखते हैं?

उत्तर_ विकासउन्मुख देश अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का स्वप्न देखते हैं।